



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1864]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940

No. 1864]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 24 मई, 2018

का.आ. 2059(अ).—भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के भारत के राजपत्र 'असाधारण' भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 10 मई, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ 1873(अ) के अनुच्छेद (2) को निम्नलिखित पढ़ें:-

पाँम फ्रूट्स, क्रम सं. 262 के विरुद्ध, कालम (2) में, प्रविष्टि (iii) के बाद प्रविष्टि (iv) नाशपाती (पायरस एसपीपी) से संबंधित, कालम (3) में 'खपत हेतु ताजे फल' और कालम (2), (3) (4), (5) और (6) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और उससे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः शामिल की जाएंगी, अर्थात :

पौधे की प्रजातियाँ	पौधे की श्रेणी	मूल देश	फाइटोसेनेट्री प्रमाणपत्र में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त घोषणाएं	आयात की विशेष शर्तें
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(iv) नाशपाती (पायरस एसपीपी)	(iii) खपत हेतु ताजे फल	साउथ कोरिया	से मुक्त : क) एक्यूल्स एसक्लेटेनडली (एप्पल रस्ट माइट) ख) एडोक्सोफाइज ओराना (सम्मर फ्रूट टोरट्रिक्स) ग) बोट्रियोजफेरिया बेरेनजेरीना एफएसपी पाइरीकोला (फाइसालोसपोरा केंकर) घ) कारपोसिना ससाकी (पीच फ्रूट मोथ)	(i) एनएपी या उसके समकक्ष के तहत 21 डिग्री सी पर 2 घंटे के लिए 32 जी/क्यूबिक मीटर पर एमबीआर सुगंधित करण (ii) 40 दिनों के लिए 0.0 डिग्री सी अथवा उसे नीचे पर प्री-शिपमेंट/इन-ट्रांजिट शीत उपचार ये उपचार मूल/पुनः निर्यात के

			ड.) ग्राफोलिता मोलेस्टा (ओरियंटल फ्रूट मौथ) च) हारमोनियां एक्सीरिडिस (हारलेक्वीन लेडीबर्ड) छ) मेटकाल्फा प्रूनोसा (फ्रोस्टेड मौथ-बग) ज) पेरीड्रोमा सोकिया (पेरली अंडरविंग मौथ)	देश पर जारी फाइटोसेनेट्री प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकित किया जाना चाहिए।
--	--	--	--	---

[मि. सं. 8-108/2018-पीपी- II]

डॉ. वी. राजेन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पादप संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322(अ) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3(अ), 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (अ), 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 228(अ), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ), 27 जून, 2014 के का.आ. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114 (अ), 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496(अ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101(अ), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608(अ), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873(अ), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192(अ) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248(अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364(अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344(अ.), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475(अ), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019(अ), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082(अ) दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248(अ) तथा दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873(अ) के माध्यम से संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department Of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th May, 2018

S.O. 2059(E).—In Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Gazette of India Notification (Extraordinary) in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1873(E) dated 10th May, 2018, para No. 2, Amendment of Schedule VI may be read as:

Against serial number 262, relating to Pome fruits, in column (2) after the entry (iii) regarding 'Pyrus communis (Pears)', in column (3) against (iii) 'Fresh fruits for consumption, the entries relating thereto, columns (2), (3) (4), (5) and (6) shall respectively be inserted, namely:

Plant species	Category of plant Material	Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(iv) Pyrus spp.	(iii) Fresh fruit for consumption	(ii) South Korea	Free from : a) <i>Aculus schlechtendali</i> (Apple rust mite) b) <i>Adoxophyes orana</i> (Summer fruit tortrix) c) <i>Botryosphaeria berengeriana f.sp. pyricola</i> (Physoleposora canker) d) <i>Carposina sasakii</i> (peach fruit moth) e) <i>Grapholita molesta</i> (oriental fruit moth) f) <i>Harmonia axyridis</i> (harlequin ladybird) g) <i>Metcalfa pruinosa</i> (frosted moth-bug) h) <i>Peridroma saucia</i> (pearly underwing moth)	(i) MBr fumigation at 32 g/cubic meter for 2 hrs at 21 degree C or above under NAP or equivalent thereof or (ii) Pre-shipment / in-transit cold treatment at 0.0 degree C or below for 40 days. The treatment should be endorsed on phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export.

[F. No. 8-108/2018-PP.II]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018 and S.O. No.1930 dated 15th May, 2018.